



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 181]

नई दिल्ली, बुधस्पातिवार, अप्रैल 18, 2002/चैत्र 28, 1924

No. 181]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 18, 2002/CHAITRA 28, 1924

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2002

सा. का. नि. 290 (अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोचीन पत्तन के न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दर्शित कोचीन पत्तन न्यास कर्मचारी (विभागाध्यक्षों की भर्ती) संशोधन विनियम, 2002 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

अनुसूची

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोचीन पोर्ट ट्रस्ट एतद्वारा निम्नलिखित विनियम कोचीन पोर्ट ट्रस्ट (विभागाध्यक्षों की भर्ती) विनियम, 1991 में संशोधन लाने के लिए केन्द्र सरकार के अनुमोदन के शर्त पर बनाती है।

कोचीन पोर्ट ट्रस्ट (विभागाध्यक्षों की भर्ती) संशोधन विनियम, 2002

1. इन विनियमों का नाम कोचीन पोर्ट ट्रस्ट (विभागाध्यक्षों की भर्ती) संशोधन विनियम, 2002 है।

2. सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से ये प्रवृत्त होंगे।

3. कोचीन पोर्ट ट्रस्ट (विभागाध्यक्षों की भर्ती) विनियम, 1991, की अनुसूची, निम्नलिखित भर्ती नियम से प्रतिस्थापित किया जाए।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन या गैर चयन	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यताएं/अनुभव
1	2	3	4	5	6	7
मुख्य चिकित्सा अधिकारी	1	श्रेणी-1	रु 17500-22300	चयन	45 वर्ष	(क) शैक्षिक योग्यताएं : मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से चिकित्सा स्नातक होने के सहित चिकित्सा विज्ञान की किसी शाखा

में पोस्ट ग्रेजुवेट डिग्री/डिप्लोमा होना चाहिए।

(ख) अनुभव :

कम से कम 15 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव होना चाहिए जिसमें कम से कम 5 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव किसी ऐसे मुख्य अस्पताल का होना चाहिए जो महा पत्तन न्यास सरकारी या अर्ध सरकारी विभाग/स्वायत्त का सार्वजनिक क्षेत्र संगठन से संबंधित हो।

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु, (ख) शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव विभिन्न तरीके के पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, अगर है तो	भर्ती का तरीका जो चाहे सीधी भर्ती या पदोन्नति/प्रति- नियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा हो	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के मामले में जिस ग्रेड से वह किया जाना चाहिए	टिप्पणी
8	9	10	11	12
आयु : नहीं योग्यताएं : जी हां	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा/महापत्तनों से अवशोषण के आधार पर स्थानान्तरण, जिसके न होने पर सरकारी/अर्ध सरकारी संगठन/ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/स्वायत्त निकाय में, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	पदोन्नति द्वारा : उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर 2 वर्ष की नियमित सेवावाले अधिकारी या निवासी चिकित्सा अधिकारी के पद पर 5 वर्ष की नियमित सेवा या सहायक चिकित्सा अधिकारी (एम.जी.) के पद पर 6 वर्ष की नियमित सेवा की हो। अवशोषण के आधार पर स्थानान्तरण द्वारा अधिकारी सदृश्य पदों पर हो महापत्तन न्यास में उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी के समतुल्य ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा की हो। स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा सरकारी/अर्ध सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/स्वायत्त निकायों के सदृश्य पद के अधिकारी हों या महापत्तन न्यास में उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी के समतुल्य ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो।	

1	2	3	4	5	6	7
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी	1	श्रेणी-1	रु. 18500-23900	चयन	45 वर्ष	(क) अनिवार्य : भारतीय चार्टेड अकाउन्टेन्ट संस्थान की सदस्यता (सी.ए.)/भारतीय लागत तथा संकर्म लेखाकार संस्थान की सदस्यता (आई.सी.डब्ल्यू.ए.) (ख) अनुभव : महापत्तन न्यास सरकारी या अर्ध सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/स्वायत्त निकायों के वित्त विभाग में प्रबन्धकीय हैसियत का कम से कम 5 वर्षों का अनुभव।

8	9	10	11	12
आयु : नहीं योग्यता : हों, परन्तु संगठित केन्द्रीय सेवा परीक्षा और सेवाओं से संबंध अधिकारियों और एस.ए.एस. योग्यता वाले विभागीय उम्मीदवारों पर लागू नहीं है	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा/महापत्तनों से अबसोरब्शन के आधार पर स्थानान्तरण, जिसके न होने पर सरकारी/अर्ध सरकारी संगठन/सार्वजनिक उपक्रम/स्वायत्त निकायों से, से स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्त द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	पदोन्नति : उप वित्तीय सलाहकार/उप सचिव/लागत लेखा अधिकारी जिनकी ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा हो। अबसोरब्शन के आधार पर स्थानान्तरण : सदृश पद के अधिकारी हों या महापत्तन न्यास में उप वित्तीय सलाहकार/उप सचिव के समतुल्य या इससे ऊपर के पद पर 5 वर्षों की नियमित सेवा की हो। स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा : सरकारी/अर्ध सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/स्वायत्त निकायों के सदृश्य पद के अधिकारी हों या महापत्तन न्यास में उप वित्तीय सलाहकार/उप सचिव के समतुल्य ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा की हो।	

1	2	3	4	5	6	7
सचिव	1	श्रेणी-1	रु. 18500-2900	चयन	45 वर्ष	(क) अनिवार्य : (i) शैक्षिक : मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय से डिग्री या इसके समतुल्य डिग्री। (ii) अनुभव : महापत्तन न्यास/सरकारी या अर्ध सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/स्वायत्त निकायों में प्रबन्धकीय हैसियत में

7				
15 वर्षों का अनुभवों जिसमें प्रशासन, सामान्य वैयक्तिक प्रबन्ध या वित्त और लेखे से संबंधित कार्य किया हो। (ख) वांछनीय : स्नातकोत्तर डिग्री/वैयक्तिक प्रबन्ध में डिप्लोमा/विधि में औद्योगिक संबंधी स्नातक डिग्री।				

8	9	10	11	12
आयु : नहीं योग्यताएं : जी हां	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा/महापत्तनों से अबसोरब्शन के आधार पर स्थानान्तरण, जिसके न होने पर सरकारी/अर्ध सरकारी संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/स्वायत्त निकायों से स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्त द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	पदोन्नति : उप सचिव/उप वित्तीय सलाहकार के ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा हो। अबसोरब्शन के आधार पर स्थानान्तरण : सदृश पद के अधिकारी या महापत्तन न्यास में उप सचिव या इसके समतुल्य या इससे ऊपर के पद पर 5 वर्षों की नियमित सेवा की हो। स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा : सरकारी/अर्ध सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/स्वायत्त निकायों के सदृश पद के अधिकारी हों या महापत्तन न्यास में उप सचिव के समतुल्य ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा की हो।	

1	2	3	4	5	6	7
मुख्य यांत्रिक इंजीनियर	1	श्रेणी-1	रु 18500-23900	चयन	45 वर्ष	(क) शैक्षिक : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिक या विद्युत इंजीनियरी में डिग्री या इसके समतुल्य डिग्री या प्रथम श्रेणी में (मोटर) एम.ओ.टी. सक्षमता प्रमाण पत्र या इसके समतुल्य। (ii) अनुभव : महापत्तन न्यास/सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थापनाओं/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/स्वायत्त संगठन में प्रबन्धकीय हैसियत में 15 वर्षों का अनुभव जिसमें यांत्रिक/विद्युत या मराइन इंजीनियरिंग से संबंधित कार्य किया हो।

					7	
					(ग) वांछनीय . स्नातकोत्तर डिग्री/वैयक्तिक प्रबन्ध मे डिप्लोमा/विधि में औद्योगिक संबंधी स्नातक डिग्री।	
8	9	10	11	12		
आयु नहीं योग्यता - जी हा।	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा/महापत्तनों से अबसोरक्षण के आधार पर स्थानान्तरण, जिसके न होने पर सरकारी/अर्ध सरकारी संगठन/ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/स्वायत्त निकायों में, से स्थानान्तरण/ प्रतिनियुक्त द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	पदोन्नति अधीक्षक इंजीनियर(या) 2 वर्षों की नियमित सेवा सहित/उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर/उप मुख्य इंजीनियर (वैद्युत)/ यांत्रिक अधीक्षक/टुडजिंग अधीक्षक की ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा सहित/ सहायक टुडजिंग अधीक्षक और मुख्य इंजीनियर (फ्लोटिल्ला) की ग्रेड में 6 वर्षों की नियमित सेवा सहित। अबसोरक्षण आधार पर स्थानान्तरण : सदृश पदों के अधिकारी या महापत्तन न्यायों में उप मुख्य इंजीनियर पद के समतुल्य या इसमें ऊपर के पद पर 5 वर्षों का अनुभव हो। स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा सरकारी/अर्ध सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/स्वायत्त निकायों के सदृश्य पद के अधिकारी ही या महापत्तन न्याय में उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर पद के समतुल्य ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा की हो।			
1	2	3	4	5	6	7
उप संरक्षक	1	श्रेणी-1	रु. 18500- 23900	चयन	45 वर्ष	(क) अनिवार्य : (i) व्यावसायिक : विदेशगामी जलयान के मास्टर के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र जिसे जलभूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया हो या समतुल्य हो। (ii) अनुभव : महापत्तन में विदेशगामी पोत के मास्टर या संचालन और टुडजिंग में 10 वर्षों का अनुभव। (ख) वांछनीय : पत्तन प्रचालनों में अनुभव।

8	9	10	11	12
आयु नहीं योग्यता जी हां	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा महापत्तनों से अबसोरक्षण के आधार पर स्थानान्तरण, जिसके न होने पर सरकारी/अर्ध सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/स्वायत्त निकायों से स्थानान्तरण प्रतिनियुक्त द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	पदोन्नति बन्दरगाह मास्टर के पद से 3 वर्षों का नियमित सेवा सहित डाक मास्टर मैनेजर (एम पी सी) ग्रेड से 5 वर्षों की नियमित सेवा सहित पोइल्ट की ग्रेड से 7 वर्षों की नियमित सेवा सहित। अबसोरक्षण आधार पर स्थानान्तरण . सदृश पदों के अधिकारी या महापत्तन न्यास में बन्दरगाह मास्टर के समतुल्य या इससे ऊपर के पद पर कम से कम 3 वर्षों की नियमित सेवा की हो। स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा सरकारी अर्ध सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/स्वायत्त निकायों के सदृश्य पद के अधिकारी हो या महापत्तन न्यास में बन्दरगाह मास्टर के समतुल्य ग्रेड से 5 वर्षों की नियमित सेवा की हो।	

1	2	3	4	5	6	7
यातायात प्रबन्धक	1	श्रेणी-1	रु 18500 23900	चयन	45 वर्ष	अनिवार्य . (क) शैक्षिक : मान्यताप्राप्त विश्व- विद्यालय की डिग्री या समतुल्य डिग्री। (ख) अनुभव . समुद्री यातायात परिवहन से संबंधित प्रबन्धकीय हैसियत में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव, जिसे महापत्तन में संबंधित होने पर तरजीह दी जाएगी।

8	9	10	11	12
आयु : नहीं योग्यता : जी हां	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा/महापत्तनों से अबसोरक्षण के आधार पर स्थानान्तरण, जिसके न होने पर सरकारी/अर्ध सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/स्वायत्त निकायों से स्थानान्तरण/ प्रतिनियुक्त द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	पदोन्नति अपर यातायात प्रबन्धक की ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा हो/उप यातायात प्रबन्धक की ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा की हो। अबसोरक्षण आधार पर स्थानान्तरण सदृश पदों के अधिकारी या महापत्तन न्यास में उप यातायात प्रबन्धक के पद के समतुल्य या उससे ऊपर के पद पर 5 वर्षों की नियमित सेवा की हो।	

11

स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा
सरकारी/अर्ध सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र
उपक्रम/स्थायित्त निकायों के सदृश्य
पद के अधिकारी हो या महापत्तन
न्यास में उप यातायात प्रबन्धक के
समतुल्य ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित
सेवा की हो।

1	2	3	4	5	6	7
मुख्य इंजीनियर (सिविल)/मुख्य इंजीनियर एवं प्रशासक (मत्स्य बन्दरगाह)	1	श्रेणी -1	रु. 18500- 23900	चयन	45 वर्ष	अनिवार्य : (क) शैक्षिक : मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या समतुल्य डिग्री। (ख) अनुभव : महापत्तन न्यास/सरकारी या अर्ध सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या स्थायित्त निकाय में कम से कम 15 वर्षों का प्रबन्धकीय हैसियत में अनुभव या कम से कम 7 वर्षों का पत्तन योजना और निर्माण का अनुभव। (ii) वांछनीय : परियोजना प्रबन्ध में उत्तरदायीत्वपूर्ण हैसियत में अनुभव।
8	9	10	11	12		
आयु : नहीं योग्यताएं : जी हां।	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा/महापत्तनों से अवसोरक्षण के आधार पर स्थानान्तरण, जिसके न होने पर सरकारी/अर्ध सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/स्थायित्त निकायों से स्थानान्तरण/ प्रतिनियुक्त द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा : अधीक्षक इंजीनियर ग्रेड में 2 वर्षों की नियमित सेवा/उप मुख्य इंजीनियर ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा सहित/ कार्यपालक इंजीनियर ग्रेड में 6 वर्षों की नियमित सेवा सहित। अवसोरक्षण आधार पर स्थानान्तरण द्वारा समतुल्य रैंक के अधिकारी या महापत्तन न्यास में उप मुख्य इंजीनियर के समतुल्य पद पर या इससे ऊपर के पद में 5 वर्षों की नियमित सेवा की हो। स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा सरकारी/अर्ध सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/स्थायित्त निकायों के सदृश्य पद के अधिकारी हो या महापत्तन न्यास में उप मुख्य इंजीनियर के समतुल्य ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा की हो।			

[फा. सं. पीआर-12012/2/2002-पीई-1]

आर.के. जैन, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी :—मुख्य विनियम भारतीय राजपत्र के दि. 3-4-91 के जी.एम.आर. 200(ई) में प्रकाशित किया गया था तथा
19-9-95 के जी.एस.आर. संख्या : 645(ई) में संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April, 2002

G.S.R. 290 (E)—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (i) of Section 124, read with sub-section (i) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Cochin Port Trust (Recruitment of Heads of Department) Amendment Regulations, 2002 made by the Board of Trustees of Port of the Cochin as set out in the schedule annexed to this Notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Cochin Port Trust hereby makes the following Regulations to amend the Cochin Port Trust (Recruitment of Heads of Departments) Regulations, 1991 subject to approval of the Central Government.

The Cochin Port Trust (Recruitment of Heads of Departments) Amendment Regulations, 2002.

1. These Regulations may be called the Cochin Port Trust (Recruitment of Heads of Departments) Amendment Regulations, 2002
2. They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.
3. In the Cochin Port Trust (Recruitment of Heads of Departments) Regulations, 1991, in Schedule the following Recruitment Rules shall be substituted.

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection or non-Selection	Age limit for direct recruitment	Educational Qualification Experience required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
Chief Medical Officer	1	Class-I	Rs 17500-22300	Selection	45 years	<p>(a) Educational Qualification : Should be a Medical Graduate of Recognised University with Post Graduate Degree/Diploma in any order of Medical Science.</p> <p>(b) Experience : Should have at least 15 years professional experience including at least 5 years administrative experience in any Major Hospital belonging to Major Port Trust/Govt or Semi-Govt Depts. Autonomous or Public Sector Organisation.</p>

Whether (a) age (b) Educational Qualification/ Experience prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion by various methods.	Period of probation, if, any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or transfer.	In case of promotions/ deputations/transfer, grades from which it should be made.	Remarks
8	9	10	11	12
Age : No Qlfn. : Yes	2 Years	By promotion/transfer on absorption basis from the Major Ports, failing which by transfer/ deputation from Govt./Semi.-Govt Organisations/PSUs/Autonomous bodies, failing which by direct rec- ruitment.	By Promotion : Officers with 2 years regular service in the post of Dy. Chief Medical Officer or Resident Medical Officer with 5 years regular service in the grade or Asst. Medical Officer (SG) with 6 yrs. regular service in the grade. By Transfer on Absorption Basis : Officers holding analogous posts or with 5 years regular service in the grade equivalent to Dy. Chief Medical Officer in Major Port Trust. By Transfer/Deputation : Officers from Govt./Semi-Govt. PSUs/Autonomous bodies holding analogous posts or with 5 years regular service in the grade equiva- lent to Dy. Chief Medical Officer in a Major Port Trust.	

1	2	3	4	5	6	7
Financial Adviser & Chief Accounts Officer	1	Class-I	Rs. 18500- 23900	Selection	45 years	(a) Essential : Membership of the Institute of the Chartered Accountants of India (C.A.)/Membership of the Institute of Cost and Works Accountants of India (ICWA) (b) Experience : Not less than 5 years experience in a Managerial position in a Finance Dept. of Major Port Trust/Govt. or Semi-Govt. Dept./Public Sector Under- taking/Autonomous Bodies.

1291 52/02-2

8	9	10	11	12
Age : No Qlfn. : Yes, Except to Officers belonging to organised Central Audit & Accounts Services & Depart- mental candidates with SAS qualification.	2 Years	By promotion/transfer on absorption basis from the Major Ports, failing which by transfer/ deputation from Govt./Semi.-Govt. Organisations/PSUs/Autonomous bodies, failing which by direct rec- ruitment.	Promotion : Dy. Financial Adviser/Dy. Secretary/ Cost Accounts Officer with 5 years regular service in the grade. Transfer on Absorption Basis : Officers holding analogous posts or having 5 yrs. regular service in the post equivalent to Dy. Financial Adviser/ Dy. Secretary and above in a Major Port Trust. By Transfer/Deputation : Officers from Govt./Semi-Govt./ PSUs Autonomous bodies holding analogous posts or with 5 years regular service in the grade equivalent to Dy. Financial Adviser/Dy. Secretary in a Major Port Trust.	

1	2	3	4	5	6	7
Secretary	1	Class-1	Rs. 18500- 23900	Selection	45 years	(a) Essential : (i) Educational : Degree of a Recognised University or equivalent. (ii) Experience : 15 years experience in a Managerial position dealing with a Administration, Personal General Management or Finance and Accounts in a Major Port Trust/Govt. or Semi-Govt. Dept./Public Sector Under- taking/Autonomous Bodies. (b) Desirable : MBA/ACS/Bachelors Degree in Law.

8	9	10	11	12
Age : No Qlfn. : Yes	2 Years	By promotion/transfer on absorption basis from the Major Ports, failing which by transfer/ deputation from Govt./Semi.-Govt. Organisations/PSUs/Autonomous bodies, failing which by direct rec- ruitment.	Promotion : Dy. Secretary/Dy. Financial Adviser/ with 5 years regular service in the grade. Transfer on Absorption Basis : Officers holding analogous posts or with 5 yrs. regular service in the post of Dy. Secretary or equivalent and above in a Major Port Trust By Transfer/Deputation : Officers from Govt./Semi-Govt./PSUs/ Autonomous bodies holding analogous posts or with 5 years regular service in the grade equivalent to Dy. Secretary in a Major Port Trust	

1	2	3	4	5	6	7
Chief Mechanical Engineer	1	Class-I	Rs 18500-23900	Selection	45 years	<p>(a) Educational : Degree in Mechanical or Electrical Engineering from a Recognised University or equivalent or Ist Class (Motor) MOT Certificate of Competency or equivalent.</p> <p>(b) Experience : 15 yrs. experience in a Managerial capacity dealing with Mechanical/Electrical or Marine Engg. works in a Major Port Trust/Govt. or Semi-Govt. Establishments/ Public Sector Undertaking/Autonomous Organisation</p> <p>(c) Desirable : Post Graduate Degree/Diploma in Personal Management/Industrial Relations Bachelor Degree in Law.</p>

8	9	10	11	12
Age : No Quali : Yes	2 Years	By promotion/transfer on absorption basis from the Major Ports, failing which by transfer/deputation from Govt./Semi.-Govt. Organisations/PSUs/Autonomous bodies, failing which by direct recruitment	<p>Promotion : Superintending Engineer (M) with 2 years regular service/Dy. Chief Mechanical Engineer/Dy. Chief Engineer (Ele.)/ Mechanical Supdt. Dredging Supdt. with 3 years regular service in the respective grade/Asst. Dredging Supdt. and C.E. (Flotilla) with 6 years regular service in the grade.</p> <p>Transfer on Absorption Basis : Officers holding analogous posts or having 5 yrs. experience in the post equivalent to Dy. Chief Mechanical Engineer and or above in Major Port Trust.</p> <p>By Transfer/Deputation : Officers from Govt /Semi-Govt./PSUs/ Autonomous bodies holding analogous posts or with 5 years regular service in the grade equivalent to Dy. Chief Mechanical Engineer in a Major Port Trust.</p>	

1	2	3	4	5	6	7
Deputy Conservator	1	Class-I	Rs. 18500-23900	Selection	45 years	<p>(a) Essential : (i) Professional : Certificate of competency as Master of Foreign Going Vessel issued by Ministry of Surface Transport or equivalent.</p> <p>(ii) Experience : 10 yrs experience as Master of Foreign Going Ship or in Pilotage and Dredging in a Major port.</p> <p>(b) Desirable : Experience in Port Operations.</p>

8	9	10	11	12
Age : No Qualific. : Yes	2 Years	By promotion/transfer on absorption basis from the Major Ports, failing which by transfer/deputation from Govt./Semi-Govt. Organisations/PSUs/Autonomous bodies, failing which by direct recruitment.	Promotion : Harbour Master with 3 years regular service, Dock Master/Manager (MPC) with 5 years regular service in the grade/ Pilots with 7 years regular service in the grade Transfer on Absorption Basis : Officers holding analogous posts or with at least 3 years regular service in a post equivalent to Harbour Master and above in Major Port Trust. By Transfer/Deputation : Officers from Govt./Semi-Govt./PSUs/Autonomous bodies holding analogous posts or with 5 years regular service in the grade equivalent to Harbour Master in a Major Port Trust	

1	2	3	4	5	6	7
Traffic Manager	1	Class-I	Rs. 18500-23900	Selection	45 years	Essential : (a) Educational : Degree of a Recognised University or equivalent; (b) Experience : At least 5 years experience in a managerial capacity dealing with Sea Traffic Transportation, preferably connected with a Major Port.

8	9	10	11	12
Age : No Quali : Yes	2 Years	By promotion/transfer on absorption basis from the Major Ports, failing which by transfer/deputation from Govt./Semi-Govt. Organisations/PSUs/Autonomous bodies, failing which by direct recruitment	Promotion : Additional Traffic Manager with 3 years regular service/Dy. Traffic Manager with 5 years regular service in the grade. Transfer on Absorption Basis : Officers holding analogous posts or with 5 years regular service in the post equivalent or above to Dy. Traffic Manager in Major Port Trust. By Transfer/Deputation : Officers from Govt./Semi-Govt./PSUs/Autonomous bodies holding analogous posts or with 5 years regular service in the grade equivalent to Dy Traffic Manager in a Major Port Trust.	

1	2	3	4	5	6	7
Chief Engineer (Civil)/Chief Engineer and Administrator (Fisheries Harbour)	1	Class-I	Rs. 18500-23900	Selection	45 years	(i) Essential : (a) Educational : A Degree in Civil Engg. from a Recognised University or equivalent. (b) Experience : At least 15 years experience in a managerial capacity with at least 7 years in Port Planning and construction in a Major Port Trust/Govt. or Semi-Govt. Deptt./Public Sector Undertaking/Autonomous Body. (ii) Desirable Experience in Project Management in a responsible position.

8	9	10	11	12
Age : No Quali : Yes	2 Years	By promotion/transfer on absorption basis from the Major, Ports, failing which by transfer/deputation from Govt./Semi-Govt. Organisations/PSUs/Autonomous bodies, failing which by direct recruitment	Promotion Superintendent Engineer with 2 years regular service/Dy. Chief Engineer with 3 years regular service in the grade/Exc. Engrs. with 6 years regular service in the grade. Transfer on Absorption Basis Officers of equivalent rank or with 5 years regular service in the post equivalent to Dy. Chief Engineer or above in Major Port Trust. By Transfer/Deputation Officers from Govt./Semi-Govt./PSUs/Autonomous bodies holding analogous posts or with 5 years regular service in the grade equivalent to Dy. Chief Engineer in a Major Port Trust.	

[F. No. PR-12012/2/2002-PE-I]

R. K. JAIN, Jt. Secy.

Foot Note : The Principal Regulations were published in the Gazette of India vide G.S.R. 200(E) dated 03-04-1991 and amended vide G.S.R. No. 645(E) dated 19-09-1995.

